

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2019/पौष 20, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 705
No. 3]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2019/PAUSHA 20, 1940	[N.C.T.D. No. 705

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सं. एफ.13(1)/2018/एमडब्लू/श्रम 50.—राज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना संख्या 104जे तथा गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 530, दिनांक 6 फरवरी, 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का (XI) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन, न्यूनतम वेतन के निर्धारण और पुनरीक्षण में सरकार को सलाह देने के लिए, करते हैं, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य

1. सचिव (श्रम)

अध्यक्ष

सरकारी सदस्य:-

1. प्रधान सचिव (वित्त) या उनका प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के रैंक से कम न हो।
2. निदेशक (अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी) योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. अतिरिक्त श्रम सचिव/ अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

सदस्य
सदस्य
सदस्य

गैर सरकारी सदस्य

1. श्री संजय भट्ट, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क।

सदस्य

2. डा. परमजीत, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।

सदस्य

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री ब्रजेश कुमार, भारतीय मजदूर संघ | सदस्य |
| 2. चौ. जिले सिंह गुर्जर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस | सदस्य |
| 3. श्री धीरेन्द्र शर्मा, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। | सदस्य |
| 4. श्री नारायण सिंह, हिंद मजदूर सभा। | सदस्य |
| 5. श्री अनुराग सक्सेना, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। | सदस्य |
| 6. श्रीमति अंकिता उपरेती, सेवा | सदस्य |
| 7. श्री वी.के.एस. गौतम, ऑल इंडिया सैन्ट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। | सदस्य |
| 8. श्री जवाहर प्रसाद सिंह, लेबर प्रोग्रेसिव फ़ेडरेशन। | सदस्य |
| 9. श्री शत्रुजीत सिंह, यूनाईटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। | सदस्य |
| 10. श्री सुनील कुमार, नेशनल फ़ंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन | सदस्य |
| 11. श्री रमेश कुमार, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर। | सदस्य |
| 12. श्री हरिश त्यागी, ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर। | सदस्य |
| 13. श्री कृष्ण कुमार, श्रमिक विकास संगठन। | सदस्य |
| 14. श्री राजीव अग्रवाल, हॉस्पिटल इम्प्लोईज यूनियन। | सदस्य |
| 15. डा. अनिमेश दास, इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। | सदस्य |

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री समीर नैयर, दिल्ली फैक्ट्ररी ओनर फ़ेडरेशन। | सदस्य |
| 2. श्री उदेश बाबल, फ़ेडरेशन आफ ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। | सदस्य |
| 3. श्री विनय जैन, नरेला चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन | सदस्य |
| 4. श्री तारा चंद्र, पटपड़गंज एफ. आई.ई. इंटरपेनर्स एसोसिएशन। | सदस्य |
| 5. श्री वरुण मित्तल, लघु उद्योग भारती। | सदस्य |
| 6. श्री मनप्रीत सिंह, नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन। | सदस्य |
| 7. श्री रोहित सब्बरवाल, लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन | सदस्य |
| 8. श्री मुरली मणी, व्यापार मंडल करोल बाग। | सदस्य |
| 9. श्री रवि विग, पी.एच. डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। | सदस्य |
| 10. श्री रघुवंश अरोडा, एपेक्स चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज। | सदस्य |
| 11. श्री अशोक गुप्ता, दाल एवं बेसन मिलर एसोसिएशन। | सदस्य |
| 12. श्री अशोक तुल्सीयान, दिल्ली हिंदुस्तानी मरकेंटाइल एसोसिएशन। | सदस्य |
| 13. श्री विनोद गुलाटी, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नार्थ इंडिया। | सदस्य |
| 14. डा. के.के. कालरा, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। | सदस्य |
| 15. श्री कंवल कुमार, एसोसिएशन ऑफ हाल सेलर रेडिमेड गारमेंट्स डीलर्स | सदस्य |

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के आदेश तथा उनके नाम पर,
डॉ. राजेन्द्र धर, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2019

No.F.13(1)/2018/MW/Lab 50.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI) of 1948) read with Government of India, Ministry of State Notification 104-J dated 24.08.1950 and Ministry of Home Affairs notification dated 06.02.1967, Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the Delhi Minimum Wages Advisory Board consisting of following persons for advising the Government in respect of fixation and revision of minimum rates of wages.

MEMBERS OF THE MINIMUM WAGES ADVISORY BOARD

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Secretary (Labour). | Chairman |
|------------------------|----------|

OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|--|--------|
| 1. Pr. Secretary (Finance) or his nominee not below the rank of Special Secretary (Finance). | Member |
| 2. Director (Economic & Statistics), Planning Department, GNCT of Delhi. | Member |

- | | |
|---|--------|
| 3. Addl. Secretary (Labour)/Addl. Labour Commissioner, GNCT of Delhi. | Member |
|---|--------|

NON OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|--|--------|
| 1. Sh. Sanjai Bhatt
Professor, Delhi School of Social Works.. | Member |
| 2. Dr. Paramjit
Associate Professor, Delhi School of Economics. | Member |

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

- | | |
|---|--------|
| 1. Sh. Brajesh Kumar, Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS). | Member |
| 2. Ch. Zile Singh Gujjar, Indian National Trade Union Congress (INTUC) | Member |
| 3. Sh. Dharendra Sharma, All India Trade Union Congress (AITUC) | Member |
| 4. Sh. Narayan Singh, Hind Mazdoor Sabha(HMS) | Member |
| 5. Sh. Anurag Saxena, Centre of Indian Trade Union(CITU) | Member |
| 6. Smt. Ankita Upreti, SEWA | Member |
| 7. Sh. V.K.S. Gautam, All India Central Council of Trade Union (AICCTU) | Member |
| 8. Sh. Jawhar Prasad Singh, Labour Progressive Federation (LPF). | Member |
| 9. Sh. Shatrujeet Singh, United Trade Union Congress (UTUC) | Member |
| 10. Sh. Sunil Kumar, National Front of Indian Trade Union (NFITU) | Member |
| 11. Sh. Ramendra Kumar, Trade Union Coordination Centre (TUCC). | Member |
| 12. Sh. Harish Tyagi, All India United Trade Union Centre (AIUTUC). | Member |
| 13. Sh. Krishna Kumar Yadav, Shramik Vikas Sangthan (SVS). | Member |
| 14. Sh. Rajeev Aggarwal, Hospital Employees Union (HEU). | Member |
| 15. Dr. Animesh Dass, Indian Federation of Trade Union (IFTU). | Member |

EMPLOYERS REPRESENTATIVES

- | | |
|--|--------|
| 1. Sh. Sameer Nayyar, Delhi Factory Owners Federation | Member |
| 2. Sh. Udesb Babal, Federation of Okhla Industrial Association
(Okhla Factory Owners Association) | Member |
| 3. Sh. Vinay Jain, Narela Chamber of Commerce and Industrial Association. | Member |
| 4. Sh. Tara Chand, Patpar Ganj F.I.E Entrepreneurs Association. | Member |
| 5. Sh. Varun Mittal, Laghu Udyog Bharti. | Member |
| 6. Sh. Manpreet Singh, New Delhi Traders Association. | Member |
| 7. Sh. Rohit Sabarwal, Lajpat Nagar Traders Association. | Member |
| 8. Sh. Murli Mani, Vayapar Mandal, Karol Bagh. | Member |
| 9. Sh. Ravi Wig, PHD Chamber of Commerce and Industry. | Member |
| 10. Sh. Raghuvansh Arora, Apex Chamber of Commerce and Industry. | Member |
| 11. Sh. Ashok Gupta, Dal & Besan Miller Association. | Member |
| 12. Sh. Ashok Tulsian, Delhi Hindustani Mercantile Association. | Member |
| 13. Sh. Vinod Gulati, Hotel Restaurant Association of North India. | Member |
| 14. Dr. K.K. Kalra, Association of Health Care Providers. | Member |
| 15. Sh. Kanwal Kumar, Association of Whole Sale Readymade Garments Dealers | Member |

By Order and in Name of
the Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi

Dr. RAJENDER DHAR, Add. Secy. (Labour)